

अञ्जूर

लेखक

रामेशबेदी, आयुर्वेदालंकार

विज्ञान-परिषद्

प्रयाग